

C.N No. - 5749 -PFRDA/17/07/11/0003/2017-SUP-CAB-Part (2)

दिनांक: 14.09.2026

सलाह

सेवा में,

केंद्र सरकार के PrAO, PAO, DDO,

CAB कार्यालय

विषय: ट्रस्टी बैंक को NPS योगदान भेजते समय "Sender to Receiver Information" (भेजने वाले से प्राप्तकर्ता को जानकारी) फ़्रील्ड में TID को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के बारे में सलाह।

प्रिय महोदय/महोदया,


PFRDA का यह प्रयास है की अभिदताओ के हित के लिए समान दिवस के निवेश की निर्धारित अवधि को कम करने को ध्यान में रखते हुए, ट्रस्टी बैंक (TB) और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा संसाधन प्रक्रिया में लिये जाने वाले समय को कम किया जाए।

2. हालाँकि, यह देखा गया है कि सरकारी क्षेत्र में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योगदान के लिए भेजे गए पैसे (रेमिटेंस) का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्टी बैंक में मिलान (मैच) नहीं हो पाता है। ऐसा रेमिटेंस मैसेज में ट्रांज़ैक्शन ID (TID) के उपलब्ध न होने, छूट जाने या गलत दर्ज होने के कारण होता है। अभी, लगभग 75-80% सरकारी रेमिटेंस की पहचान और मिलान के लिए मैनुअल हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, जिससे NPS योगदान की प्रोसेसिंग और सेटलमेंट में अनावश्यक देरी होती है।

3. TID एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो सरकारी नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए रेमिटेंस और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जमा की गई संबंधित योगदान जानकारी के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। रेमिटेंस मैसेज में TID का सही ट्रांसमिशन ट्रस्टी बैंक को संबंधित योगदान रिकॉर्ड के साथ रेमिटेंस की पहचान करने और उसका मिलान करने में सक्षम बनाता है और योगदान की समय पर प्रोसेसिंग में मदद करता है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी नोडल कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित रेमिटिंग बैंक ट्रस्टी बैंक को NPS योगदान रेमिटेंस भेजते समय "Sender to Receiver Information" फ़्रील्ड में सही TID अनिवार्य रूप से दर्ज करें। TID को सही ढंग से दर्ज करने से बिना मिलान वाले ट्रांज़ैक्शन कम होंगे, फंड रसीद कन्फर्मेशन (FRC) अपलोड में आसानी होगी और कुल सेटलमेंट समय को कम करने में मदद मिलेगी।

भवदीय,


(विकास कुमार सिंह)
मुख्य महाप्रबंधक



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



C.N No. - 5749 -PFRDA/17/07/11/0003/2017-SUP-CAB-Part (2)

Date: 14.09.2026

Advisory

To,

The PrAOs, PAOs, DDOs of the Central Government,

The CAB offices

Subject: Advisory on mandatory capture of TID in the "Sender to Receiver Information" field while remitting NPS contributions to the Trustee Bank- reg.

Dear Sir/ Madam,

PFRDA endeavour is to reduce the timelines taken by the Trustee Bank (TB) and Central Recordkeeping Agencies (CRAs) in the settlement process, with a view to advancing the cut-off time for same-day investment for the benefit of subscribers.

2. However, it has been observed that a significant proportion of remittances towards National Pension System (NPS) contributions in the Government sector, remain unmatched at the Trustee Bank due to the non-availability, omission or incorrect capture of the Transaction ID (TID) in the remittance message. At present, nearly 75-80% of Government remittances require manual intervention for identification and matching, resulting in avoidable delays in the processing and settlement of NPS contributions.

3. The TID is an important reference for establishing a clear linkage between the remittance initiated by the Government Nodal Office and the corresponding contribution information submitted through the prescribed process. Accurate transmission of the TID in the remittance message enables the Trustee Bank to identify and reconcile the remittance with the relevant contribution records and facilitates timely processing of contributions.

4. In view of the above, all Nodal Offices are advised to ensure that their respective remitting banks mandatorily capture the correct TID in the "Sender to Receiver Information" field while making NPS contribution remittances to the Trustee Bank. Accurate capture of the TID will reduce unmatched transactions, Fund Receipt Confirmation (FRC) upload and help reduce overall settlement timelines.

Yours sincerely,

(Vikas Kumar Singh)

Chief General Manager